

SSC CPO SI

सॉल्व्ड
पेपर



कर्मचारी चयन आयोग Staff Selection Commission



तैयारी की पूरी जानकारी हिन्दी में
SarkariHelp.com

भाग I सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति

निर्देश (प्र.सं. 1-4) नीचे एक अनुक्रम दिया है, जिसमें एक पद/संख्या लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे।

1. NZ, OY, PX, QW, RV, ?

- (a) FS (b) SU
(c) UF (d) TU

2. 3.5, 7, 10.5, 14, ?

- (a) 15.5 (b) 16.5
(c) 18.5 (d) 17.5

3. 7, 12, 19, 28, 39, ?

- (a) 52 (b) 50
(c) 51 (d) 48

4. 1, 3, 7, 13, 21, 31, 43, ?

- (a) 55 (b) 57 (c) 59 (d) 61

5. यदि $2 + 3 + 5 = 30$, $3 + 4 + 6 = 72$,

- $5 + 6 + 2 = 60$ तो $5 + 4 + 0 = ?$
(a) 40 (b) 30
(c) 0 (d) इनमें से कोई नहीं

6. यदि 150 मी लम्बी रेलगाड़ी 12 सेकण्ड में एक पोल से गुजरती है, तो रेलगाड़ी की प्रति घण्टा प्रति किमी (किमी/घण्टा) गति क्या होगी?

- (a) 45 (b) 60
(c) 50 (d) 75

7. निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के असरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता

- IMPOSSIONABLE
(a) IMPOSSIBLE (b) POSSIBLE
(c) IMPOSE (d) IMPASSIVE

निर्देश (प्र.सं. 8-11) दिए गए विकल्पों में से सम्बन्धित शब्द/ संख्या को चुनिए।

8. विषाणु : घेचक :: जीवाणु : ?

- (a) छोटी माता (b) टायफनयड
(c) मलेरिया (d) निद्रा रोग

9. घर : रसोई :: पौधा : ?

- (a) जड़ (b) मिट्टी
(c) पत्ती (d) तना

10. पुस्तक : शेल्फ :: कपड़े : ?

- (a) हैगर (b) कवर्ड
(c) वॉर्डरोब (d) ब्यूरो

11. $125 : 5 :: 64 : ?$

- (a) 8 (b) 4 (c) 2 (d) 32

12. निम्नलिखित सिद्धान्त में कौन-सा अंक सही नहीं बैठता?

- 22, 37, 52, 67, 84, 97
(a) 52 (b) 84 (c) 97 (d) 67

निर्देश (प्र.सं. 13 और 14) नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए।

13. (a) Chop (b) Silt
(c) Chirp (d) Slice

14. (a) Giddy (b) Defeat
(c) Mother (d) Father

15. निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोष में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें।


1. Billian 2. Bifurcate
3. Bilateral 4. Bilirubin
(a) 2, 1, 3, 4 (b) 4, 3, 2, 1
(c) 2, 3, 4, 1 (d) 2, 3, 1, 4

16. सम संख्या के बाद और विषम संख्या से पहले कितने '8' हैं?
 1 8 4 3 8 1 4 8 3 2 8 7 8 4 8 5 6 8 7 8 4 1 8 6
 (a) 3 (b) 4
 (c) 9 (d) 5

17. कौन-सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी?
प्रश्न आकृति



उत्तर आकृतियाँ




18. दिए गए प्रतिरूप में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए।



- (a) 26 (b) 30
 (c) 35 (d) 38

19. निम्न आकृति में प्रदर्शित है


- पुलिस अधिकारी : वृत्त
 भ्रष्ट : त्रिभुज
 कवि : वर्ग
 विवाहित : आयत




ऐसे अविवाहित पुलिस अधिकारियों का क्षेत्र बताइए, जो भ्रष्ट नहीं हैं किन्तु कवि हैं।

- (a) 8 (b) 9
 (c) 2 (d) 4

निर्देश (प्र.सं. 20 और 21) नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक/आकृति ज्ञात कीजिए।




- (a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 6



22. दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन-सी प्रश्न आकृति में निहित है?
प्रश्न आकृति




उत्तर आकृतियाँ




23. नीचे दिखाए अनुसार कोरों पर कटे हुए कागज के वर्गाकार टुकड़े मोड़ा जाता है। मुड़ा हुआ पैटर्न कैसा दिखाई देगा?

प्रश्न आकृतियाँ




उत्तर आकृतियाँ




24. यदि एक दर्पण को x रेखा पर रखा जाए, तो दी गई उत्तर आकृति कौन-सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिम्ब होगी?

प्रश्न आकृति



उत्तर आकृतियाँ



25. एक शब्द केवल एक संख्या-समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या-समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि नीचे दिए गए दो आव्यूहों में है। आव्यूह I में स्तम्भ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है और आव्यूह II में 5 से 9। इन आव्यूहों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तम्भ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 'U' को 10, 42 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा 'R' को 55, 69 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको शब्द 'SLEEP' के लिए समूह को पहचानना है।

आव्यूह I

	0	1	2	3	4
0	P	U	L	S	E
1	U	L	S	E	P
2	L	S	E	P	U
3	S	E	P	U	L
4	E	P	U	L	S

आव्यूह II

	5	6	7	8	9
5	R	A	D	I	O
6	A	D	I	O	R
7	D	I	O	R	A
8	I	O	R	A	D
9	O	R	A	D	I

(a) 44, 11, 40, 31, 41

(b) 30, 20, 31, 30, 41

(c) 30, 34, 40, 22, 44

(d) 44, 43, 31, 22, 95


भाग II संख्यात्मक अभिरुचि

26. $a:b$ अनुपात के प्रत्येक पद में कितनी मात्रा जोड़ी जाए, ताकि उनका अनुपात $c:d$ हो जाए ?
 (a) $\frac{ab - cd}{a - b}$ (b) $\frac{ac + bd}{c + a}$ (c) $\frac{ad + bc}{c + d}$ (d) $\frac{ad - bc}{c - d}$
27. यदि A का $\frac{1}{2} = B$ का $\frac{2}{5} = C$ का $\frac{1}{3}$ हो, तो $A:B:C$ कितना होगा?
 (a) 4:5:6 (b) 6:4:5 (c) 5:4:6 (d) 4:6:5
28. 5 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, जिनमें 4 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष 3 महीने है। तदनुसार, पाँचवें लड़के की आयु कितनी होगी?
 (a) 15 वर्ष (b) 15 वर्ष 6 महीने
 (c) 15 वर्ष 4 महीने (d) 15 वर्ष 2 महीने
29. एक खास सप्ताह में एक स्थान का न्यूनतम दैनिक तापमान सोमवार से आरम्भ होकर क्रमशः 20°C , 18.6°C , 17°C , 21.4°C , 19°C तथा 19.8°C था। तदनुसार, यदि यह ज्ञात हो कि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 19.5°C था, तो रविवार का न्यूनतम तापमान कितना था?
 (a) 16.9°C (b) 11.6°C (c) 20.7°C (d) 12.8°C
30. एक व्यक्ति ने एक मेज 15% लाभ पर बेची। यदि उसने वही 25% कम पर खरीदी होती और ₹ 60 कम पर बेची होती, तो उसे 32% लाभ होता। तदनुसार, उस मेज का लागत मूल्य कितना था?
 (a) ₹ 300 (b) ₹ 350 (c) ₹ 375 (d) ₹ 400
31. एक व्यापारी ने p सेब ₹ q में खरीदे और q सेब ₹ p में बेच दिए। तदनुसार, यदि $p < q$ हो, तो उसे इस सौदे में कितना लाभ या हानि हुई?
 (a) $100 \left(\frac{p^2 + q^2}{q^2} \right) \%$ लाभ (b) $100 \left(\frac{q^2 - p^2}{q^2} \right) \%$ हानि
 (c) $100 \left(\frac{p^2 + q^2}{p^2} \right) \%$ हानि (d) $100 \left(\frac{q^2 - p^2}{p^2} \right) \%$ लाभ
32. एक महिला ने कुछ अण्डे ₹ 30 प्रति दर्जन की दर पर खरीदे। तदनुसार, उसे 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 अण्डों का विक्री मूल्य कितना (₹ में) रखना चाहिए?
 (a) 280 (b) 250
 (c) 300 (d) 360
33. यदि एक वर्ग की भुजाएँ 25% बढ़ा दी जाएँ, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा?
 (a) 125% (b) 50% (c) 56.25% (d) 53.75%
34. एक संख्या अपने 20% से 40% ज्यादा है। तदनुसार, वह संख्या कितनी है?
 (a) 50 (b) 60 (c) 80 (d) 48
35. एक रेलगाड़ी एक खास दूरी 50 मिनटों में तय कर लेती है। यदि वह रेलगाड़ी 48 किमी/घण्टा की गति से चल रही हो, तो उसे वही दूरी 40 मिनटों में पूरी करने के लिए, किस गति (किमी/घण्टा) से चलना होगा?
 (a) 64 (b) 60 (c) 54 (d) 56.5
36. $\frac{\sqrt{0.001} \times \sqrt{1000000}}{\sqrt{125} \times \sqrt{0.008}}$ का मान ज्ञात कीजिए।
 (a) 1 (b) 10 (c) .1 (d) .01
37. $\sqrt{289} - \sqrt{625} + \sqrt{25}$ किसके बराबर है?
 (a) 17 (b) 15 (c) 12 (d) $-\frac{8}{5}$
38. एक टंकी में तीन नलियाँ लगी हैं। वह खाली टंकी क्रमशः पहली नली से 3 घण्टों और दूसरी नली से 4 घण्टों में भर जाती है। टंकी पूरी भर जाने पर तीसरी नली द्वारा 5 घण्टों में खाली हो जाती है। तब यदि तीनों नलियाँ एकसाथ चालू कर दी जाएँ, तो वह टंकी कितने घण्टों में भर जाएगी?
 (a) $1\frac{14}{23}$ घण्टे (b) $2\frac{14}{23}$ घण्टे
 (c) 2 घण्टे 40 मिनट (d) 1 घण्टा 56 मिनट
39. 155 आदमियों ने एक कार्य का एक-तिहाई भाग 23 दिनों में पूरा किया। तदनुसार, उस कार्य के लिए कितने आदमी और नियुक्त किए जाएँ, ताकि शेष बचा कार्य (पहले जैसी गति से) 31 दिनों में पूरा हो जाए?
 (a) 230 आदमी (b) 75 आदमी
 (c) 23 आदमी (d) 130 आदमी
40. 10 सेमी त्रिज्या वाले तीन वृत्तों, जो एक-दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हों, द्वारा घेरा हुआ कुल क्षेत्रफल कितना होगा?
 (यहाँ $\pi = 3.14$ तथा $\sqrt{3} = 1.732$ है।)
 (a) 2161 सेमी² (b) 16.20 सेमी²
 (c) 12.16 सेमी² (d) 21.16 सेमी²

41. एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के अन्तर्गत बनाए गए सबसे बड़े सम्भावित वर्ग का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) कितना होगा?
 (a) $2\sqrt{\pi}$ (b) π (c) 2 (d) 1
42. एक खुदरा व्यापारी एक सिलाई मशीन 15% छूट पर खरीदता है और उसे ₹ 1955 में बेच देता है। इस पर उसे 15% लाभ मिल जाता है। तदनुसार, उसके द्वारा दी गई छूट कितनी है?
 (a) ₹ 300 (b) ₹ 290 (c) ₹ 270 (d) ₹ 350
43. एक टीवी, जिसकी लागत ₹ 5400 है, एक त्योहार के समय ₹ 4968 में बेचने का प्रस्ताव है। तदनुसार, उस पर उस दुकान द्वारा कितनी छूट देने का प्रस्ताव है?
 (a) 7% (b) 7.5% (c) 8% (d) 8.5%
44. एक पंखे को बेचते समय एक दुकानदार 6% छूट देता है। यदि वह उस पर 9% छूट दे, तो उसे ₹ 90 कम मिलेंगे। तदनुसार, उस पंखे का अंकित मूल्य कितना है?
 (a) ₹ 3025 (b) ₹ 3000 (c) ₹ 2225 (d) ₹ 2000
45. दो संख्याओं का अनुपात 5 : 6 है और उनका लघुतम समापवर्त्य 480 है। तदनुसार, उनका महत्तम समापवर्तक कितना होगा?
 (a) 20 (b) 16 (c) 6 (d) 5
46. एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मी की दूरी से देखा। तभी उस चोर ने दौड़ना आरम्भ कर दिया और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। वह चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किमी तथा 11 किमी/घण्टा की गति से दौड़े। तदनुसार 6 मिनटों बाद, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी?
 (a) 100 मी (b) 180 मी (c) 150 मी (d) 125 मी
47. एक मूलराशि 3 वर्षों में ₹ 944 और 5 वर्षों में ₹ 1040 हो जाती है, जबकि उस राशि का निवेश एकसमान साधारण ब्याज दर पर किया गया है
 (a) ₹ 800 (b) ₹ 992 (c) ₹ 750 (d) ₹ 900

48. यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ₹ 87.92 हो, तो उसी धनराशि पर उतने ही वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा?
 (a) ₹ 18 (b) ₹ 64 (c) ₹ 90 (d) ₹ 96

निर्देश (प्र.सं. 49 और 50) निम्न स्तम्भ आरेख में एक स्थान के परिवारों की संख्या और उन परिवारों को एक खास महीने में प्राप्त पत्रों की संख्या को दर्शाया गया है। इसका सर्वेक्षण वहाँ के स्थानीय डाकघर ने किया है। तदनुसार, आरेख का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए।



49. इस सर्वेक्षण में शामिल कुल परिवारों की संख्या कितनी है?
 (a) 110 (b) 250 (c) 300 (d) 330
50. उस खास महीने में प्रति परिवार को प्राप्त होने वाले पत्रों की औसत संख्या कितनी है?
 (a) $31\frac{3}{7}$ (b) 3 (c) 2 (d) $2\frac{10}{17}$

भाग III General English

Directions (Q. Nos. 51-53) Four alternatives are given for the Idiom/Phrase underlined in the sentences. Choose the alternative which best expresses the meaning of the Idiom/Phrase.

51. Her mother saw through the excuse she gave.
 (a) revealed (b) detected (c) viewed (d) hacked
52. She has a bee in her bonnet and can say anything.
 (a) is a crazy person (b) is a frank person
 (c) is a foolish person (d) is a proud person
53. Some people have the habit of working by fits and starts.
 (a) very seriously (b) excitedly
 (c) consistently (d) irregularly

Directions (Q. Nos. 54-58) A part of the sentence is underlined. Below are given alternatives to the underlined part at (a), (b) and (c) which may improve the sentence. Choose the correct alternative. In case no improvement is needed your answer is (d).

54. He makes excellent portraits.
 (a) paints (b) portrays
 (c) illustrates (d) No improvement

55. The dog bite him.
 (a) beat him (b) bit him
 (c) bitten him (d) No improvement
56. Students will have to take the test again tomorrow.
 (a) apply the test (b) avoid the test
 (c) retain the test (d) No improvement
57. The innocence of the child was obliterated due to hard labour.
 (a) maintained (b) increased
 (c) destroyed (d) No improvement
58. He was given a lot of pressure to sign the deed.
 (a) told (b) forced
 (c) asked (d) No improvement

Directions (Q. Nos. 59-63) Out of the four alternatives choose the one which can be substituted for the given words/sentence.

59. A hater of women
 (a) Androgynist (b) Misogynist
 (c) Misanthropist (d) Eve-teaser
60. Easy to shape in any desired form
 (a) Ductile (b) Malleable (c) Flexible (d) Plasticine

61. Amount of money demanded by kidnappers
 (a) Donation (b) Honorarium (c) Ransom (d) Salary
62. Property inherited from one's father or ancestors
 (a) Alimony (b) Patrimony
 (c) Voluntary (d) Armistice
63. That which may be easily broken
 (a) Indestructible
 (b) Revocable
 (c) Divisible
 (d) Brittle

Directions (Q. Nos. 64-69) There are four different words out of which one is correctly spelt. Find out the correctly spelt word.

64. (a) Mischievous (b) Mischievious
 (c) Mischeivous (d) Mischeivious
65. (a) Incidantally (b) Incidantelly
 (c) Incidentally (d) Incidentelly
66. (a) Profession (b) Profetion
 (c) Profesion (d) Profession
67. (a) Ordinanace (b) Ordinance
 (c) Ordinance (d) Ordinnance
68. (a) Sparro (b) Sparrow
 (c) Sperrow (d) Sparow
69. (a) Inergy (b) Energy
 (c) Enerzy (d) Enerzi

Directions (Q. Nos. 70-74) You have a passage with 5 questions. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the four alternatives.

Passage

Many years ago there lived in India a great king called Jehangir. He ruled over a very big kingdom or empire. So, he was called an emperor.

The emperor wanted to be just to all his subjects. He ordered his soldiers to tie a big bell in front of the palace. Then he sent the soldiers to every part of the empire. They announced that if the people had any complaint they could come to the palace and ring the bell. The emperor himself would listen to their complaints. He would give them justice.

70. Jehangir was called an emperor because
 (a) he was a great king
 (b) he ruled over a very big kingdom
 (c) he lived in India
 (d) he lived in a big empire many years ago
71. What was the desire of Jehangir?
 (a) To order his soldiers
 (b) To make many conquests
 (c) To be just to his subjects
 (d) To rule over a very big kingdom
72. The soldiers
 (a) called all the people
 (b) arrested all the criminals
 (c) rode away to a distant land
 (d) tied a big bell in front of the palace

73. Complaint means
 (a) complete (b) complexity (c) objections (d) disaster
74. The people would ring the bell if
 (a) they were arrested (b) they went to the palace
 (c) they had any wealth (d) they wanted justice

Directions (Q. Nos. 75-84) Some parts of the sentences have errors and some are correct. Find out which part of a sentence has an error and corresponding to the appropriate letter (a, b, c). If a sentence is free from error, your answer is (d).

75. 'Gulliver's Travels' (a)/are indeed (b)/an interesting book. (c)/No error (d)
76. Either Parmeet (a)/or Jyoti (b)/have done the crime. (c)/No error (d)
77. The streets (a)/are so wet (b)/it should have rained last night. (c)/No error (d)
78. Our vacation is (a)/between 12 May (b)/to 12 June. (c)/No error (d)
79. He is very angry on me (a)/because I failed (b)/to return his book. (c)/No error (d)
80. The social activist (a)/was murder (b)/in cold blood. (c)/No error (d)
81. The train will not start (a)/until the guard (b)/will blow the whistle. (c)/No error (d)
82. I read (a)/a great deal of (b)/books. (c)/No error (d)
83. The Indians are genetically (a)/incapable of (b)/being good or outstanding sportsmen. (c)/No error (d)
84. Equator (a)/divides the Earth (b)/into two hemispheres. (c)/No error (d)

Directions (Q. Nos. 85-94) Sentences are given with blanks to be filled in with an appropriate word(s). Four alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the four.

85. The teacher let us
 (a) to go early (b) to leave early
 (c) go early (d) early to go
86. Jane is annoyed
 (a) on me (b) with me
 (c) against me (d) over me
87. I am not angry you, Paul.
 (a) at (b) on (c) with (d) against
88. ... Australian and ... European are there among the tourists.
 (a) An, an (b) The, the (c) An, a (d) A, an
89. I have been looking for an apartment and I finally found the one.
 (a) good (b) airy (c) cheap (d) perfect
90. The youth should believe God.
 (a) upon (b) in (c) on (d) of
91. He was born India.
 (a) off (b) in (c) of (d) through

Download From Previous Papers Download.in

92. The convict tried his level best to justify himself but the judge looked him and found him guilty.
 (a) around (b) at (c) through (d) to
93. His opponents launched a political against him.
 (a) regimen (b) remission
 (c) regale (d) tirade
94. What an story ! I am not enough yet to believe it.
 (a) incredible/credulous (b) incredulous/credible
 (c) increditable/believable (d) unbelievable/credible

Directions (Q. Nos. 95-97) Choose the word opposite in meaning to the given word.

95. Barren
 (a) Frigid (b) Fertile (c) Fallow (d) Ferrous

96. Hostile
 (a) Host (b) Proud
 (c) Systematic (d) Sympathetic
97. Peril
 (a) Fatal (b) Mortal (c) Uncertainty (d) Safety

Directions (Q. Nos. 98-100) Out of the four alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given word.

98. Absurd
 (a) Diligent (b) Ridiculous (c) Brisk (d) Complex
99. Solitary
 (a) Sad (b) Voluntary (c) Subtle (d) Lonely
100. Pacific
 (a) Extensive (b) Peaceful (c) Deep (d) White

भाग IV सामान्य जानकारी

101. निम्न में कौन 'कायिक उर्वरीकरण' कहलाता है?
 (a) प्रजनक उर्वरीकरण
 (b) युग्मक संलयन
 (c) त्रिगुण संलयन
 (d) निषिक्ताण्ड के साथ नर युग्मकोदभिदी का संलयन
102. मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का भेण्डल ने चयन किया था?
 (a) 7 (b) 3 (c) 4 (d) 2
103. हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं?
 (a) गुरुत्वाकर्षण बल (b) आपेक्षिक वेग
 (c) घर्षण की कमी (d) घर्षण की अधिकता
104. किसी पदार्थ का अणु किसके कारण अपने परमाणु के समान होता है?
 (a) द्विपरमाणुक अणु (b) बहुपरमाणुक अणु
 (c) एकपरमाणुक अणु (d) त्रिपरमाणुक अणु
105. यान्त्रिक ऊर्जा का विद्युत-ऊर्जा में परिवर्तन किसमें नहीं होता?
 (a) बॉघ (b) एसी जनरेटर
 (c) डीसी जनरेटर (d) मोटर
106. विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है?
 (a) व्यतिकरण (b) प्रकाश वैद्युत प्रभाव
 (c) विवर्तन (d) ध्रुवीकरण
107. डीवीडी का प्रयोग किसके लिए होता है?
 (a) डिजिटल वीडियो डेवलपर (b) डिजिटल वीडियो डिवाइस
 (c) डिजिटल वीडियो डिस्क (d) इनमें से कोई नहीं
108. एम एम डॉस में प्राइमरी फाइल नेम में कितने कैरेक्टर रखे जा सकते हैं?
 (a) 6 (b) 8 (c) 10 (d) 12
109. यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है?
 (a) स्टोरेज डिवाइस (b) प्रोसेसर
 (c) पोर्ट टाइप (d) सीरियल बस स्टैण्डर्ड
110. ट्रेस पदार्थों की निम्नलिखित सूची में क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता?
 (a) ग्रेफाइट (b) हीरा
 (c) सोडियम फ्लोराइड (d) सोडियम क्लोराइड

111. निम्नलिखित में से किसे यशद पुष्प कहते हैं?
 (a) जिंक क्लोराइड (b) जिंक ऑक्साइड
 (c) जिंक नाइट्रेट (d) जिंक ब्रोमाइड
112. रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवनकाल 70 दिन का होता है। उसी पदार्थ का एक ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा?
 (a) 140 दिन (b) 70 दिन (c) 210 दिन (d) 280 दिन
113. सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है?
 (a) रेतीली/बलुई मिट्टी
 (b) दोमट मिट्टी
 (c) चिकनी मिट्टी
 (d) बलुई और चिकनी मिट्टी के मिश्रण
114. वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहते हैं?
 (a) ज्योतिष विज्ञान (b) मौसम विज्ञान
 (c) भूकम्प विज्ञान (d) खगोल विज्ञान
115. जैव-विविधता अभियान पर कन्वेंशन का सचिवालय कहाँ था?
 (a) लन्दन (b) इटली (c) मॉण्ट्रियल (d) टोरण्टो
116. भारत में निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे हरा-भरा (हरित) शहर माना जाता है?
 (a) बंगलुरु (b) घण्डीगढ़ (c) दिल्ली (d) तिरुवनन्तपुर
117. क्लोरोफिल में कौन-सा पार्फिरिन होता है?
 (a) मैग्नीशियम (b) कैल्शियम (c) लौह/आयरन (d) टिन
118. भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक कौन हैं?
 (a) विनोद राय (b) राजेन्द्र पवार
 (c) रोहिन्तन नरीमन (d) इनमें से कोई नहीं
119. अरब सागर में तेल बिखराव के कारण मुम्बई तट पर हाल में हुये 'कॉर्नॉलिस' का क्या नाम था?
 (a) सागर ज्योति (b) वीनस
 (c) एमएससी चित्रा (d) गोल्डन ईगल
120. 'सच ए लांग जर्नी' पुस्तक के लेखक कौन थे?
 (a) खुशवंत सिंह (b) सलमान रुश्दी
 (c) अनिताम घोष (d) रोहिन्तन मिस्त्री

121. इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी?
 (a) 7वीं शताब्दी ईसवी सन्
 (b) 5वीं शताब्दी ईसवी सन्
 (c) 5वीं सदी ईसा पूर्व
 (d) 3वीं सदी ईसा पूर्व
122. शिन्तो कहां का मूल धर्म है?
 (a) चीन
 (b) जापान
 (c) सिंगापुर
 (d) ऑस्ट्रेलिया
123. सन्तन पैराओलम्पिक खेलों का उद्घाटन किसने किया था?
 (a) प्रिंस चार्ल्स
 (b) यथीन एलिजाबेथ
 (c) बराक हुसैन ओबामा
 (d) डेविड कैमरुन
124. 13 जुलाई, 2012 को अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लेने की घोषणा किसने की थी?
 (a) केविन पीटरसन
 (b) जैक-कैलिस
 (c) शेन वाटसन
 (d) ब्रेट ली
125. किस क्षेत्र में असामान्य योगदान के लिए शान्तिस्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है?
 (a) साहित्य
 (b) अभिनय कला
 (c) विज्ञान
 (d) समाज सेवा
126. भारत का प्रथम उपग्रह 'आर्यभट्ट' कब छोड़ा गया?
 (a) 1972
 (b) 1976
 (c) 1974
 (d) 1975
127. 'ट्राई' का अर्थ क्या है?
 (a) भारतीय परिवहन नियामक प्राधिकरण
 (b) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
 (c) भारतीय परिवहन पंजीकरण प्राधिकरण
 (d) भारतीय दूरसंचार पंजीकरण संघ
128. ग्रामीण वित्त मोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा मुख्य बैंक है?
 (a) सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक
 (b) भू-विकास बैंक
 (c) नाबार्ड
 (d) स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक
129. निम्नलिखित में से कौन-सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है?
 (a) उत्पाद शुल्क
 (b) आय कर
 (c) व्यापार कर
 (d) कॉर्पोरेट कर
130. समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था?
 (a) कार्ल मार्क्स
 (b) वेल्स
 (c) पिगू
 (d) डिकिन्सन
131. भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
 (a) 1947
 (b) 1951
 (c) 1961
 (d) 1950
132. रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है?
 (a) मानकीय/आदर्श विज्ञान
 (b) सकारात्मक विज्ञान
 (c) मानकीय और सकारात्मक विज्ञान दोनों
 (d) कला और विज्ञान दोनों
133. एमके गौधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन-सी थी?
 (a) माई एक्सपेरीमेंट्स विथ ट्रुथ
 (b) हिन्द स्वराज
 (c) इण्डिया ऑफ माई ड्रीम्स
 (d) की टु हैल्थ
134. भारत में कौन-सी प्रणाली है?
 (a) संसदीय प्रणाली
 (b) राष्ट्रपति शासन प्रणाली
 (c) अर्द्ध राष्ट्रपति शासन प्रणाली
 (d) बहु व्यक्ति कार्यपालिका प्रणाली
135. तनाव/विमनस्य-शैथिल्य क्या है?
 (a) महाशक्तियों के बीच अत्यधिक तनाव
 (b) महाशक्तियों के बीच तनाव शैथिल्य
 (c) शस्त्रीकरण और हथियारों की होड़
 (d) उपरोक्त सभी
136. वैश्वीकरण का सम्बन्ध किसके अप्रतिबन्धित एवं उन्मुक्त चलन से है?
 (a) पूँजी
 (b) प्रौद्योगिकी
 (c) माल
 (d) ये सभी
137. सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए?
 (a) सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम-से-कम 2/3 सदस्य
 (b) सदन के कुल सदस्यों में से कम-से-कम 2/3 सदस्य
 (c) सदन के कुल सदस्यों में से बहु-संख्यक सदस्य
 (d) सदन के विशेष बहुमत
138. आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 में विभाजित किया।
 (a) कालावधि
 (b) समुदाय
 (c) अनुशासन
 (d) आश्रम
139. गौधीजी ने 'करो या मरो' का मन्त्र कब दिया?
 (a) असहयोग आन्दोलन
 (b) नमक सत्याग्रह
 (c) भारत छोड़ो आन्दोलन
 (d) साइमन कमीशन विरोधी आन्दोलन
140. सिन्धु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे?
 (a) विष्णु
 (b) ब्रह्मा
 (c) इन्द्र
 (d) पशुपति
141. जोन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई?
 (a) धर्मद्रोही/ विधर्मी मानकर जलाने से
 (b) कत्ल किए जाने से
 (c) बीमारी होने से
 (d) घोट लगने से
142. कनिष्ठ । किसका पृष्ठपोषक था?
 (a) महायान बुद्धवाद
 (b) हीनयान बुद्धवाद
 (c) हिन्दू धर्म
 (d) जैन धर्म
143. भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वापर किरणें नहीं मिलतीं?
 (a) घण्डीगढ़
 (b) रामेश्वरम्
 (c) मुम्बई
 (d) कोलकाता
144. जिस स्थान पर भूकम्प आता है, ठीक उस स्थान को क्या कहते हैं?
 (a) केन्द्र
 (b) क्रोड/कोर
 (c) उत्केन्द्र
 (d) घुव
145. नवम्बर, 2004 में पाँच दिवसीय चन्द्रमा के अन्वेषण एवं उपयोग पर छठा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था?
 (a) स्टॉकहोम (स्वीडन)
 (b) अहमदाबाद (गुजरात)
 (c) टोक्यो (जापान)
 (d) उदयपुर (राजस्थान)
146. भारत में कौन-सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है?
 (a) आन्ध्र प्रदेश
 (b) राजस्थान
 (c) उत्तर प्रदेश
 (d) पश्चिम बंग
147. निम्नलिखित में किस युग्म को गलत मिलाया गया है?
 (a) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - कोलकाता
 (b) भारतीय पेट्रोलियम संस्थान - मुम्बई
 (c) इण्टीग्रल कोच फैक्ट्री - पेराम्बटूर
 (d) भारतीय सर्वेक्षण - देहरादून
148. 'डेगू' किससे फैलता है?
 (a) घोड़े
 (b) फलमक्खी
 (c) मच्छर
 (d) तितली
149. डीएनए नाइट्रोजन आधार के कारण आरएनए से भिन्न होता है।
 (a) एड्डाइन
 (b) कानाइन
 (c) साइटोसाइन
 (d) थाइमाइन
150. साँपों की विष ग्रन्थियाँ किसके सदृश होती हैं?
 (a) मछलियों के वैद्युत अंग
 (b) किरणों के पुंज
 (c) स्तनधारियों की वसा/तैल ग्रन्थियाँ
 (d) कशेरुकियों की ताल ग्रन्थियाँ

उत्तरमाला

- | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. (b) | 2. (d) | 3. (a) | 4. (b) | 5. (c) | 6. (a) | 7. (d) | 8. (c) | 9. (a) | 10. (b) |
| 11. (b) | 12. (b) | 13. (c) | 14. (*) | 15. (c) | 16. (b) | 17. (d) | 18. (b) | 19. (a) | 20. (c) |
| 21. (c) | 22. (a) | 23. (c) | 24. (a) | 25. (a) | 26. (d) | 27. (a) | 28. (a) | 29. (c) | 30. (c) |
| 31. (b) | 32. (a) | 33. (c) | 34. (a) | 35. (b) | 36. (b) | 37. (c) | 38. (b) | 39. (b) | 40. (b) |
| 41. (c) | 42. (a) | 43. (c) | 44. (b) | 45. (b) | 46. (a) | 47. (a) | 48. (d) | 49. (d) | 50. (c) |
| 51. (b) | 52. (a) | 53. (d) | 54. (d) | 55. (b) | 56. (d) | 57. (d) | 58. (b) | 59. (b) | 60. (b) |
| 61. (c) | 62. (b) | 63. (d) | 64. (a) | 65. (c) | 66. (d) | 67. (c) | 68. (b) | 69. (b) | 70. (b) |
| 71. (c) | 72. (d) | 73. (c) | 74. (d) | 75. (b) | 76. (c) | 77. (c) | 78. (c) | 79. (a) | 80. (b) |
| 81. (c) | 82. (d) | 83. (d) | 84. (a) | 85. (c) | 86. (b) | 87. (c) | 88. (c) | 89. (d) | 90. (b) |
| 91. (b) | 92. (c) | 93. (d) | 94. (a) | 95. (b) | 96. (d) | 97. (d) | 98. (b) | 99. (d) | 100. (b) |
| 101. (c) | 102. (a) | 103. (c) | 104. (c) | 105. (d) | 106. (b) | 107. (d) | 108. (b) | 109. (c) | 110. (a) |
| 111. (b) | 112. (a) | 113. (c) | 114. (b) | 115. (c) | 116. (b) | 117. (a) | 118. (a) | 119. (c) | 120. (d) |
| 121. (a) | 122. (b) | 123. (b) | 124. (d) | 125. (c) | 126. (d) | 127. (b) | 128. (c) | 129. (c) | 130. (a) |
| 131. (d) | 132. (c) | 133. (b) | 134. (a) | 135. (b) | 136. (d) | 137. (b) | 138. (d) | 139. (c) | 140. (d) |
| 141. (a) | 142. (a) | 143. (a) | 144. (a) | 145. (d) | 146. (b) | 147. (d) | 148. (c) | 149. (d) | 150. (d) |

नोट (*) दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है।